

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF MILITARY AFFAIRS
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 535
TO BE ANSWERED ON 12th December, 2022

MISUSE OF ID PROOFS OF ARMY PERSONNEL

535 SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) whether Government is aware that unscrupulous elements were found with copies of identity (ID) proofs of army men for duping people;
- (b) whether it is also a fact that cyber cheats secure data of army personnel, including taking their identity proofs in different ways, like offering cheap mobile SIM; and
- (c) the steps being taken to create awareness among army personnel to ensure that these identity proofs are not used to dupe common people on online selling sites?

A N S W E R

MINISTER OF STATE
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(SHRI AJAY BHATT)

- (a): Yes, Sir.
- (b): Yes, Sir. The likely sources of leakage of ID Proofs are at securing bank loans, new SIMs (Employment Proofs).
- (c): (i) Army Personnel are regularly sensitized by concerned higher authorities and through SainikSammelan / Briefings/ Interaction to cautiously use their ID proofs, so that the same does not get misused;
(ii) The Canteen Stores Department Cards which are reportedly misused are blocked;
(iii) Action is taken against complaints and disciplinary action is initiated against defaulters for sharing ID card on online platforms.

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
सैन्य कार्य विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 535

12 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

सेना के जवानों के पहचान पत्रों का गलत इस्तेमाल

535. श्री सुशील कुमार गुप्ता :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोगों को ठगने के लिए सेना के जवानों के पहचान पत्रों (आईडी) की प्रतियां गलत लोगों के पास पाई गई हैं;
- (ख) क्या यह भी सच है कि साइबर ठग सेना के जवानों के डेटा को अपने पास रखते हैं और साथ ही सस्ते मोबाइल सिम देने जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से उनके पहचान पत्र ले लेते हैं; और
- (ग) इन पहचान पत्रों का इस्तेमाल ऑनलाइन बिक्री साइटों पर आम लोगों को ठगने के लिए न किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए सेना के जवानों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क): जी, हां ।

(ख): जी, हां । पहचान पत्र (आईडी) प्रूफ लीकेज के संभावित स्रोत बैंक ऋण, नए सिम (रोजगार प्रूफ) लेने से संबंधित हैं ।

(ग) : (i) संबंधित उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा और सैनिक सम्मेलन/ब्रीफिंग/वार्ताओं के माध्यम से सैन्य कार्मिकों को अपने पहचान पत्र प्रूफों का सावधानी पूर्वक उपयोग करने के बारे में नियमित रूप से बताया जाता है ताकि इन प्रूफों का दुरुपयोग न हो सके;

(ii) कैंटीन स्टोर्स विभाग के ऐसे कार्डों को ब्लॉक कर दिया जाता है जिनके दुरुपयोग की सूचना प्राप्त होती है;

(iii) शिकायतों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर आईडी कार्ड की सूचना देने वाले दोषी कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है ।
